



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 26, मंगलवार, शाके 1941-सितम्बर 17, 2019  
Bhadra 26, Tuesday, Saka 1941-September 17, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 11, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/ 9840** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Jahajpur has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Jahajpur. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Governmen.**

नगर पालिका जहाजपुर , भीलवाड़ा  
प्रपत्र-क

वार्ड सं.	वार्ड की सीमा का विवरण
1	मजरा कल्याणपुरा में शब्बीर मोहम्मद के मकान से शुरू होकर शेर मोहम्मद, बशीर मोहम्मद के मकान को सम्मिलित करते हुए लतीफ कम्पाउण्डर, जमाल कण्डक्टर, रमजान खां, हसन खां, मेहताब खां के मकान को व सम्पूर्ण कल्याणपुरा बस्ती को सम्मिलित करते हुए बादर अली बाबा को सम्मिलित करते हुए सामी नागदी होते हुए भल्ला माली, सिकन्दर पोल्टीफार्म व इसके आगे बनी कृषि भूमि की आबादी को सम्मिलित कर वापस कल्याणपुरा तक की सम्पूर्ण बस्ती वार्ड न0 1 में सम्मिलित है।
2	चुन्नी लाल माली की बगीचे की सम्पूर्ण बस्ती सत्यनारायण भगवान के मन्दिर को लेकर चुगी नाका न0 3 शाहपुरा रोड़ होते हुए सड़क के पीछे की और ज्योति कोलोनी, गणेश की कम्पाउण्डर की दुकान, दोनो ओर बस्ती को शामिल कर कल्याण माली व रतन लाल ताम्बी, कैलाश जी बिड़ला की दुकानों को लेते हुए, गफूर खां जी की चक्की को लेते हुए शामिल कर चक्की के पीछे बसी बस्ती दांए रख आदर्श नगर कॉलोनी वापस भगतों की झूंपड़ियां तक वार्ड न0 2 में सम्मिलित है।
3	मजरा भक्तों की झापड़ियां की सम्पूर्ण बस्ती को सम्मिलित कर लाल चन्द चमार के मकान को लेते हुए सुरजा मीणा, सुवा लाल, देबी लाल, उंकार, सोजीराम, लखमा राम रामस्वरूप खाती, एवं सम्पूर्ण बस्ती को शामिल कर रोड़ रोड़ होकर भैरूलाल टांक के पोल्टीफार्म को सम्मिलित

	करते हुए कुलिया बस्ती वार्ड न0 3 में सम्मिलित है।
4	बैंक आफ बड़ौदा से शुरू होकर, पंचायत समिति क्वाटर व कार्यालय, तहसील व उपखण्ड कार्यालय से छात्रावास को लेकर सन्तोष नगर में अरविन्द जी व्यास के मकान को लेते हुए, शंकर लाल रामधराणी के मकान को लेते हुए, दुर्गालाल पुरी के मकान से मनोहर लाल उपाध्याय के मकान को सम्मिलित करते हुए शिव नगर कोलोनी को लेते हुए बेरीखान रोड़ के बाईं और बसी हुई बस्ती को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण बाये बस्ती को लेते हुए घाटाराणी रोड़ की ओर की बस्ती को शामिल कर जिकरु रहमान, पिनारा की चक्की तक व बेरी खान जाने वाले रोड़ से वापसी में दिन मोहम्मद के मकान से शुरू होकर कन्हैयालाल जी गुर्जरों के मकान को लेते हुए सम्पूर्ण गुर्जर बस्ती को लेते हुए वार्ड न0 4 में सम्मिलित है।
5	मख्खन जी जाट से शुरू होकर बाये होते हुए जगदीश जाट के मकान की गली व केलाश शर्मा खारेलो के मकान को शामिल कर धनश्याम खटीक के मकान को लेते हुए व गांधी मेदान की सम्पूर्ण बस्ती को लेते हुए कीरो को मोहल्ला व सतु जी सोनी सम्पूर्ण गली सोहन लाल मुन्दडा के मकान से होते हुए सम्पूर्ण बस्ती को लेते हुए प्रभु पंचौली को बाये रखते हुए लादु लाल पंचाली की सम्पूर्ण गली को शामिल कर बिस्थान पुलिस थाना, क्रय विक्रय सहकारी समिति उप काराग्राह के पिछे की सम्पूर्ण बस्ती बिजली विभाग भैरूलाल सोनी की दुकान को शामिल करते हुए अगोरी आश्रम को लेते हुए सम्पूर्ण गुमच्छा बस्ती कब्रिस्तान व ईदगाह की सम्पूर्ण बस्ती को सामिल करते हुए वापस गांधी मेदान के पिछे की समस्त कुलिया बस्ती वार्ड न0 5 में सम्मिलित है।
6	आशापुरी माताजी मन्दिर से शुरू होकर मदन उपाध्याय, अब्दुल रहमान पठान का मकान, मोतीलाल गुर्जर व गुर्जरों के देव को शामिल कर भंवर जी गुर्जर, प्रहलाद जी सोनी का मकान, भैरूजी के चबूतरे को बांए रखते हुए भंवर लाल मीणा के मकान को शामिल कर हरिजन बस्ती की दांयी-बांयी बस्ती को शामिल कर रामस्वरूप हरिजन के मकान को लेते हुए खाना जी गुर्जर व तकिया मस्जिद व दुकानों को सम्मिलित कर भंवर कलां दरवाजे से निल कर चुंगी नाका न0 4 रामपाल खटीक का मकान स्वर्णकार समाज का नोहरा, बालाजी धर्मशाला, पी.डब्ल्यू.डी कार्यालय, होस्पिटल परिसर व होस्पिटल क्वाटर की सम्पूर्ण दांयी-बांयी बस्ती, सुवालका मेडिकल दुकान तक की सम्पूर्ण बस्ती शामिल कर पहाड़ी पर होते हुए आशापुरी माताजी तक की कुलिया बस्ती वार्ड न0 6 में शामिल है।

7	<p>आशापुरी मन्दिर से आगे श्री किशन जी भट्ट के मकान को शामिल कर, राधेश्याम पंचैली, जमाल जी मास्टर के मकान को शामिल कर खोहल्ला मोहल्ला की सम्पूर्ण दांयी-बांयी बस्ती को शामिल कर अजीज पठान का मकान, लतीफ भाई पोल्ट्री फार्म के मकान को लेते हुए, सद्दीक भाई जनता के मकान को शामिल कर बड़ालियों की गली के दोनों ओर की बस्ती को शामिल कर, सलीम कण्डक्टर का मकान शामिल कर पास की गली की सम्पूर्ण बस्ती को शामिल कर गफ्फार जी सरवाड़ वाले के मकान को लेकर खाजु खां पडियार के मकान को सम्मिलित कर मजीद जी आसाम, मोहन लाल बारेठ के मकान को शामिल कर वैजयन्ती माला पारिक के मकान को लेते हुए बशी लाल पारिक के मकान सामिल कर शफी मो.. खोखर के मकान से नजीर जी सरवरी के मकान को लेते हुए ममु भाई पठान के मकान को लेते हुए हफीज भाई कुरैशी के मकान से शुरू होकर मुंशी पुंवार के मकान को लेते हुए रफीक पठान के मकान को शामिल करते हुए की कुलिया बस्ती वार्ड न0 7 में सम्मिलित है।</p>
8	<p>मोहम्मद खा सकरावता के मकान को शामिल कर पीरू फ्रुट वाला का मकान, इशाक पठान के मकान को दाए रख युसुफ काजी सद्दीक पडियार गनी पडियार सकुर टाक लतीफ चक्की वाले जाकिर पडियार सहजाद कम्पाउण्डर दिलदार पडियार हमीद पडियार सहजाद पडियार अब्दल रहमान गौड अब्दुल सतार मास्टर के मकान को सामिल कर अहमद नूर पडियार बिलाल कन्डेकर फकीर मोहममद टाक जाहिद भुट्टा यासीन भुट्टा सतार मुनिम सलाम डाईवर हकीक पठान सफी फकीर नजीर अगवान बसीर अगवान कदीर अगवान के उपर की समस्त बस्ती को सामिल कर नियाज मास्टर नजीर बैण्ड इब्ब्रहिम मोलाना बुन्द टेलर के मकान को सामिल कर सफी उर्फ नेहरू टेलर के मकान तक की कुल कुलिया बस्ती वार्ड न0 8 मे सामिल है।</p>
9	<p>पवन पाण्डेता के मकान से त्रिलोक जोशी के मकान व शहजाद जेईएन का मकान हो लेते हुए सनवर कुरैशी के मकान व सम्पूर्ण चौक होते हुए जामा मस्जिद को लेते हुए म्हारा साहब की हवेली, बालाजी का मन्दिर, पारिको की बड़ी पोल, की सम्पूर्ण बस्ती को लेते हुए मोहन लाल जी जोशी के मकान से रामेश्वर जी श्रीमाली की गली की बस्ती को लेते हुए नर्मदा शंकर जी भट्ट के मकान को शामिल कर, देवला बाबा को बांये रखते हुए बिठ्ठलजी शर्मा के मकान को शामिल कर रंगलालजी तिवाड़ी का मकान राधाकिशन जी पंचैली के मकान को लेते हुए ईस्माईल लुहार के मकान को शामिल कर हीरानाथ व मोतीनाथ के मकान व दुकानों को बांये रखते हुए हनुमान टांक की गली की बस्ती को शामिल कर गोपी लाल कलाल की चक्की व मकान को बांये रखते हुए प्रेमराज टांक से ईस्माईल जुलाहा के मकान व दुकान को बांये रख खातुन बेगम के मकान को बांये रख सलाम भाई मिस्त्री के मकान को शामिल कर नारायण कलाल के मकान को लेते हुए दुर्गालालजी भारद्वाज से ओम जी जाशी के मकान को शामिल कर चिरन्जी लाल जी श्रीमाली के मकान को लेते हुए सम्पूर्ण बस्ती वार्ड न0 9 में सम्मिलित है।</p>
10	<p>श्यामलाल नागौरी की दुकान से शुरू होकर लौहियों की गली की दांयी व बांयी बस्ती को शामिल करते हुए चारभुजा जी के मन्दिर, रामस्वरूप लखारा के मकान व दुकान से होकर कालु सुनार, सुरज करण पत्रिया के मकान को शामिल करते हुए मदन जी गेला के मकान को लेते हुए जगदीश जी चाश्टा से जैन मन्दिर पत्रिया चौक घाटी की दोनों ओर की बस्ती को शामिल करते हुए मच्छी करण जी, बजरंग जी पत्रिया का मकान, फुन्दी लाल जी नागौरी की गली की बस्ती को शामिल कर रामजस मुन्दड़ा के मकान व दुकान को शामिल कर जगदीश नागौरी के मकान</p>

	बालाजी मन्दिर को लेते हुए बाबजीयों का चौक को शामिल कर, रामप्रसाद जी जोशी के मकान को शामिल कर, चेतन प्रिन्टर्स, अलादीन काजी का मकान, गोपाल जी मन्दिर, भट्टों की गली बस्ती को शामिल कर मूलचन्द जी जोशी के मकान को लेते हुए कल्याण जी की कुई तक की सम्पूर्ण बस्ती वार्ड न0 10 में सम्मिलित है।
11	बुन्दु शाह फकीर के मकान से बशीर भाई की दुकानों को लेते हुए सरजू टांक के मकान को शामिल कर हलीम भाई अगवान का मकान व दुकान राप्रसाद टांक की दुकानों को बांये रख जुलाहों के मोहल्ले की दांयी-बांयी बस्ती को शामिल करते हुए रामगोपाल टांक के मकान व दुकान को सम्मिलित कर मोहन लाल श्रीमाली के मकान को लेते हुए देबी लाल जी लखारा के मकान को शामिल कर लक्ष्मीजी के मन्दिर को बांए रख सुगन जी कांटिया के मकान से बाबूलाल जी खाबिया के मकान को शामिल कर कीरों की हवेली की दांयी-बांयी बस्ती को शामिल कर धन्ना कीर के मकान से मुंशी तंवर के मकान से नेबों के मोहल्ले की दांयी-बांयी बसती को शामिल कर रसूल खां रूपा खटीक, रामदेव थानेदार के मकान को बांये रख हीरानाथ बाबाजी तक के नाहरे तक कुलिया बस्ती वार्ड न0 11 में सम्मिलित है।
12	कैलाश खटीक के मकान से शुरू होकर कल्याण खटीक पीरू शाह मिश्री लाल खटीक, गोकुल खटीक से दुर्गालाल खटीक से भंवर कला गेट स्कूल को लेते हुए दरवाजे से निकलते हुए प्रकाश टैण्ट हाऊस और बुर्ज बाबा और ग्यारसी लाल के मकान को शामिल करते हुए भागुता माली से हुसैन खां तंवर के मकान को शामिल कर रामकरण कीर तोतला भवन बम्बों का नोहरा अहमद जी कम्पाउण्डर का मकान व दुकानों को बांये रख राम करण कीर के मकान को लेते हुए बाबू भाई घोशी रघुनाथ माली जानकी लाल दरोगा के मकान को बांये रख दुर्गालाल माली के मकान को लेते हुए मालियों के मन्दिर को शामिल कर माली समाज की दुकानों को शामिल कर बालु माली के मकान को बांये रख बंशी घोशी मुरली घोशी के मकान को शामिल करते हुए रामपाल टांक के मकान तक की कुलिया बस्ती वार्ड न0 12 में सम्मिलित है।
13	फकीर मोहम्मद जुलाहा के मकान व दुकान से शुरू होकर छीतर जी वकील के कार्यालय को बांए रख हीरा रेगर के मकान को शामिल कर लढ्ढा जी की चक्की को बांए रख बिन्दी दरवाजे मे होते हुए रामेश्वर खाती के मकान को शामिल कर तेजाजी की गली की दांयी-बांयी बस्ती को शामिल कर कीरों की माताजी कालूराम स्वर्णकार खातियों के मन्दिर को बांयें रख कल्याण मालू ताराचन्द बम्ब के मकान को शामिल करते हुए रिसलदारों की गली दांयी-बांयी बसती को शामिल कर सत्यनारायण पंचौली सरियों की गली को शामिल करते हुए मोहन लाल मून्दड़ा की दुकान बालकिशन दाखेड़ा के मकान को बांये रख रामस्वरूप पत्रिया की दुकानें जुगल गुजराती दुर्गालाल लखारा की दुकानों को लेते हुए सुरेश सोनी रामस्वरूप सुनार माणक जैन के मकान की गली की दांयी-बांयी बस्ती को शामिल कर छीपो के मन्दिर को बांये रख श्री किशन कांटिया के मकान को लेते हुए भूरालाल खाती रामपाल मून्दड़ा के नोहरे से समीर खां के मकान की गली को सम्पूर्ण बस्ती को शामिल कर कन्या शाला बिन्दीगेट प्रकाश जैन अली खां के मकान को शामिल करते हुए कीरों की माताजी के मन्दिर तक की कुलिया बस्ती वार्ड न0 13 में सम्मिलित है।
14	लादुलाल रेगर (जानतेर) के मकान से शुरू होकर रामकिशन मालू का गोदाम केसर लाल सर्राफ की हवेली को बांये रख रामप्रसाद लढा रामपाल ओझा के मकान को शामिल कर रामनिवास

	<p>गुप्ता के मकान को बांये रख बंशीधर पाराशर ताराचन्द्र सर्राफ चिरन्जी लाल बांगड़ के मकान को शामिल कर कमल सुराणा के मकान को बांये रख त्रिलोक मून्दड़ा की दुकानों को शामिल कर शुभराम लखारा के मकान को बांये रख टोंगयों की हवेली की सम्पूर्ण बस्ती को शामिल कर मालूजी दुकान से रामकुवार सर्राफ की दुकानों को शामिल करते हुए नन्दलाल धोबी नजीर मोहम्मद के मकान को शामिल कर ग्यारसी लाल रेगर बादर धोबी खाना रेगर रेगरों की माताजी की गली की सम्पूर्ण बस्ती को शामिल करते हुए समीरमल आगाल का मकान लादु कुम्हार का मकान रामदेव कोली का मकान छीतर पिता गोपी रेगर के मकान बांये रख पास की ओर की गली की बस्ती को शामिल करते हुए पास वाली गली की बस्ती को शामिल कर रामदेवजी के मन्दिर को लेते हुए हरदेव गुट्टा रेगर तक के मकान कुलिया बस्ती वार्ड न0 14 में शामिल है।</p>
15	<p>बिन्दीगेट से शुरू होकर मोतीलाल टांक का मकान व दुकान को लेते हुए देबीलाल रेगर बालु लाल खाती से मांगीलाल गुर्जर सुरजा कीर के मकान को बांये रख रेगरों की कुई के पास की सम्पूर्ण गली की बस्ती व प्रभु रेगर से कोलियो की गली से श्याम लाल कारीगर के मकान से वापस प्रभु रेगर तक की बसती को शामिल कर रामचन्द्र कोली से कल्याण कुम्हार का मकान गनी जी भिश्ती का मकान दाउल पीर बाबा का चिल्ला कांटिया जी की हवेली समीरमल आगाल की दुकानें व पुलिस चौकी को शामिल कर बारी दरवाजा होकर नागदी के नहर के ऊपर कीचावण्डिया बस्ती मालाजी के मन्दिर की पहाड़ी को शामिल कर छगन रेगर के मकान से उदय लाल टांक दुर्गालाल सेन व ढोलियों के मकानों को लेते हुए चावण्डिया माताजी तन्दिर तक की सम्पूर्ण बस्ती को शामिल कर किशन पुरी की होटल व कृषि भूमि को शामिल कर नन्दा खाती की चक्की व बिन्दीगेट स्कूल वार्ड न0 10-11 की बांयी अमरचन्द कांटिया का मकान को शामिल कर वृंदावन धाम तक की सम्पूर्ण बस्ती वार्ड न0 15 में शामिल है।</p>
16	<p>मिश्रीलाल पंचैली के मकान से शुरू होकर चान्द पिनारा कल्याण कुम्हार की हवेली से पुरुषोत्तम बांगड़ का नोहरा व मकान रोशन नाई के मकान से होकर मधुसुदन पारीक के मकान को लेते हुए भंवर जी चौधरी कन्हैया लाल जी मून्दड़ा का मकान व नाईयों की गली की बस्ती को शामिल कर जगदश नागौरी के मकान को लेते हुए मेवाड़ सेल्स की दुकान को शामिल कर सदर बाजार में होकर गणेश जी राड़ी की दुकान घीसालाल दर्जी के मकान की गली को लेते हुए थोड़ वालों की हवेली के पास की गली की बस्ती को शामिल करते हुए वापस भंवरलाल बण्डेला के मकान को लेते हुए बाबा बैद्यनाथ के मन्दिर को लेते हुए बैंक की गली की बस्ती को शामिल कर प्रभु खैरादी का मकान, कजोड़ पिनारा, जीवन जी वर्मा व बिरदी चन्द मालू से होले हुए सतु जी सोनी की दुकान को लेते हुए गोदा जी की गली, बृजनन्दन जी के मन्दिर के चारों ओर की बस्ती को शामिल कर हलवाईयो की गली में रामेश्वर अग्रवाल के मकान होते हुए माहेश्वारी समाज के नोहरे तक की सम्पूर्ण बस्ती व महावीर मालू के मकान को शामिल कर सम्पूर्ण बस्तीवार्ड न0 16 में सम्मिलित है।</p>
17	<p>सलाम काजी के मकान से चौहानो की गुवाड़ी को शामिल कर कालु खां पुंवार के मकान को लेते हुए अब्दुल रहमान चौहान का मकान चीतों की गुवाड़ी को बांये रख फतेह मोहम्मद खोखर की दाये व बाई बस्ती शामिल कर भूरे खां गौड़, नूर खां तंवर की गली की बस्ती को शामिल कर शंकर लाल नाई, बालकिशन भुंवालिया के मकान को लेते हुए काशीलाल जी के मकान को बांये</p>

	रख पंचैलियों की गली की सम्पूर्ण बस्ती को शामिल कर रामेश्वर जी वैष्णव का मकान व पास की गली की बस्ती को शामिल कर मोहन लाल तिवाड़ी के मकान को बांये रख, खुशराज जी की गली की सम्पूर्ण दांयी बांयी बस्ती को शामिल करते हुए भैरू लाल जी भंवालिया, बशीर कम्पाउण्डर के मकान को बांये रख मोहन लाल ढोली के मकान तक की कुलिया बस्ती वार्ड न0 17 मे शामिल है।
18	लतीफ ठेकेदार के मकान से शुरू होकर शाकिर पिनारा के मकान को बांये रख, उस्मान पटवारी व पास वाली गली की बस्ती को शामिल कर नूर खां पोस्ट मास्टर, हैदर अली बिसायती, नन्दलाल बारैठ के मकान को बांये रख, म्हारा साहब के नोहरे की सम्पूर्ण दांयी-बांयी बस्ती को शामिल करते हुए जबार दबूर, लुकमान खां, नजीर पटवारी के मकान को लेते हुए मुराद अगवान के मकान को शामिल कर बाबू खां कसाई के मकान व पास की गली की बस्ती को शामिल कर मुशी पठान की दुकाने, भैरूमल सिन्धी का मकान काले भैरूजी को बांये रख, शंकर भुवालिया के मकान को शामिल करते हुए मदन पुरोहित के मकान तक की कुलिया बस्ती वार्ड न0 18 में शामिल है।
19	गौतम आश्रम, चुंगी नाका न0 2 को बांये रख मिठ्ठे शाह बाबा का स्थान परमेश्वर सर्राफ की बावड़ी के ऊपर बने मकान व वन विभाग कार्यालय, सैकण्डरी स्कूल, आबकारी विभाग, मोचियों का मकान को शामिल करते हुए सोहन जी का मकान होते हुए शफीक जी कम्पाउण्डर के मकान होते हुए जलदाय विभाग तक व भगलियों के देवरा से शुरू होकर हनुमान गेट को बांये रख जमशेर जी का भट्टा व भट्टे की सम्पूर्ण बस्ती व केशर मशीन की आबादी को शामिल कर बारह देवरा की सम्पूर्ण बस्ती हनुमान गढ़ी को लेते हुए ईमरान कुरैशी के मकान को शामिल कर बाबु भाई भट्टे के पास की बस्ती को लेते हुए छोटा बड़ा नृसिंह द्वारा को शामिल कर हनुमानगेट दरवाजे में होकर अमान हाजी साहब की गली की सम्पूर्ण दांयी-बांयी बस्ती को शामिल कर हलीम भैया की हवेली तक को शामिल कर वार्ड न. 19 मे शामिल है।
20	फतेह मोहम्मद मंसूरी के मकान को लेते हुए मेवाती मोहल्ले की सम्पूर्ण दांयी-बांयी बस्ती को शामिल कर अमीर काजी, आजाद अली के मकान को बांये रख, परदेशी मोहल्ला, लढों की गली की दांयी बस्ती को शामिल करते हुए अमीर मोहम्मद के मकान से पहाड़ी पर शीतला माता के मन्दिर को शामिल करते हुए कुलिया बस्ती वार्ड न0 20 में शामिल है।
21	चावण्डिया तालाब की पाल पर बसी हुई बस्ती को सामील कर देवली रोड पर परमेश्वर सर्राफ की दुकान को बायी और रखकर राजाराम पाराशर का मकान कैलाश जी बिडला का मकान एम.एम. कोर्ट के बाये रखकर पास की बायी और की सम्पूर्ण बस्ती को सामील कर कन्या छात्रावास व कृषि उपज मण्डी व पेट्रोल पम्प के ओधोगिक क्षेत्र की सम्पूर्ण बस्ती व दूर संचार विभाग कार्यालय को लेते हुए हरी प्रसाद जी मालु का मकान व दुकान व चाद जी चौधरी का मकान व दुकानो को सामील करते हुए विधुत विभाग ग्रिड को सामील करते ग्रिड के आस पास की सम्पूर्ण बस्ती व लाला का बाड़ा की सम्पूर्ण बस्ती वार्ड न0 21 मे सामील है
22	मजरा पांचा का बाड़ा की सम्पूर्ण बस्ती व बिन्ध्याभाटा बीज गोदाम की पीछे वाली गली से फूल चन्द के मकान को लेते हुए चौक में सीताराम के मकान को लेते हुए प्रभु सूबेदार के मकान को लेते हुए श्रीनाथ सिंह जी के मकान व रामलाल रेगर के मकान तक की बस्ती तक वार्ड न0 22 मे सम्मलित है।

23	मजरा मुण्डी भट्टा की सम्पूर्ण बस्ती व सेहलादाता की सम्पूर्ण बस्ती तथा मजरा भगतो का बाड़ा की सम्पूर्ण बस्ती वार्ड न0 23 मे शामिल है।
24	बिन्ध्याभाटा विद्यालय से शुरू होकर तालाब के सहारे होते हुए मोहन लाल मीणा की चक्की को लेकर बीज गोदाम की पीछे की तरफ ग्यारसीलाल रेगर के मकान की तरफ की बस्ती को लेते हुए खेमराज मीणा का मकान चौक में दुर्गालाल मीणा का मकान माधुलुहार का मकान की तरफ की बस्ती महादेवजी को शामिल कर मोहनलाल जी पूर्व चेयरमेन के मकान को लेते हुए स्कूल तक की सम्पूर्ण बस्ती व मजरा बोरानी का बाड़ा की सम्पूर्ण बसती वार्ड न0 24 मे शामिल है।
25	लक्ष्मीपुरा II की सम्पूर्ण बस्ती व ग्राम मातोलाई की सम्पूर्ण बस्ती घाटी का बाड़ा की सम्पूर्ण बस्ती को सामील करते हुए मजरा राधी का बाड़ा की सम्पूर्ण बस्ती वार्ड न0 25 मे शामिल है।

अधिशाषी अधिकारी  
नगर पालिका जहाजपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।